



### 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां

(₹ बिलियन)

| मद                                      | 2015             | 2016             |                  | घट – बढ़      |                 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                                         | 22 मई            | 13 मई            | 20 मई            | सप्ताह        | वर्ष            |
|                                         | 1                | 2                | 3                | 4             | 5               |
| <b>1 जारी नोट</b>                       | <b>15,004.92</b> | <b>17,276.24</b> | <b>17,229.50</b> | <b>-46.73</b> | <b>2,224.58</b> |
| 1.1 संचलन में नोट                       | 15,004.81        | 17,276.08        | 17,229.35        | -46.74        | 2,224.54        |
| 1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट           | 0.11             | 0.16             | 0.16             | -             | 0.04            |
| <b>2 जमाराशियां</b>                     |                  |                  |                  |               |                 |
| 2.1 केंद्र सरकार                        | 1.01             | 1.01             | 1.01             | -             | -               |
| 2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना               | -                | -                | -                | -             | -               |
| 2.3 राज्य सरकारें                       | 0.42             | 0.42             | 16.11            | 15.69         | 15.69           |
| 2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 3,616.32         | 3,925.78         | 4,030.17         | 104.40        | 413.86          |
| 2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 32.74            | 35.07            | 34.64            | -0.43         | 1.90            |
| 2.6 अन्य बैंक                           | 197.49           | 224.70           | 225.91           | 1.21          | 28.42           |
| 2.7 अन्य                                | 1,248.90         | 814.12           | 621.62           | -192.49       | -627.28         |
| 3 अन्य देयताएं                          | 8,699.36         | 9,822.16         | 10,046.81        | 224.66        | 1,347.45        |
| <b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>           | <b>28,801.15</b> | <b>32,099.49</b> | <b>32,205.79</b> | <b>106.30</b> | <b>3,404.63</b> |
| 1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 21,003.40        | 22,700.28        | 22,896.91        | 196.63        | 1,893.51        |
| 2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी          | 1,229.33         | 1,333.21         | 1,333.21         | -             | 103.88          |
| 3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित) | 5,209.93         | 6,591.56         | 6,592.26         | 0.70          | 1,382.33        |
| <b>4 ऋण और अग्रिम</b>                   |                  |                  |                  |               |                 |
| 4.1 केंद्र सरकार                        | -                | -                | -                | -             | -               |
| 4.2 राज्य सरकारें                       | 6.79             | 26.51            | 26.22            | -0.28         | 19.44           |
| 4.3 नाबार्ड                             | -                | -                | -                | -             | -               |
| 4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 1,139.43         | 1,167.37         | 1,080.16         | -87.21        | -59.27          |
| 4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | -                | -                | -                | -             | -               |
| 4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक          | -                | -                | -                | -             | -               |
| 4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक            | -                | -                | -                | -             | -               |
| 4.8 अन्य                                | 49.16            | 58.31            | 53.91            | -4.40         | 4.75            |
| <b>5 खरीदे और भुनाए गए बिल</b>          |                  |                  |                  |               |                 |
| 5.1 वाणिज्यिक                           | -                | -                | -                | -             | -               |
| 5.2 खजाना                               | -                | -                | -                | -             | -               |
| 6 निवेश                                 | 13.20            | 23.20            | 23.20            | -             | 10.00           |
| 7 अन्य आस्तियां                         | 149.93           | 199.05           | 199.91           | 0.86          | 49.98           |

### 2. विदेशी मुद्रा भंडार

| मद                                        | 20 मई, 2016 को  |                   | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |               |                          |               |                |                |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                           |                 |                   | सप्ताह                     |               | मार्च 2016 की समाप्ति पर |               | वर्ष           |                |
|                                           | ₹ बिलियन        | मिलि.अम. डॉलर     | ₹ बिलियन                   | मिलि.अम. डॉलर | ₹ बिलियन                 | मिलि.अम. डॉलर | ₹ बिलियन       | मिलि.अम. डॉलर  |
|                                           | 1               | 2                 | 3                          | 4             | 5                        | 6             | 7              | 8              |
| <b>1 कुल भंडार</b>                        | <b>24,177.9</b> | <b>3,60,905.4</b> | <b>195.6</b>               | <b>-121.3</b> | <b>390.5</b>             | <b>729.2</b>  | <b>1,860.8</b> | <b>9,348.5</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 22,580.2        | 3,36,938.9        | 194.0                      | -107.1        | 389.6                    | 835.0         | 1,834.6        | 10,099.6       |
| 1.2 स्वर्ण                                | 1,333.2         | 20,043.0          | -                          | -             | -1.1                     | -72.0         | 103.9          | 707.3          |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                     | 101.0           | 1,498.4           | 0.6                        | -5.4          | 1.4                      | -3.1          | -157.4         | -2,566.1       |
| 1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति | 163.5           | 2,425.1           | 1.0                        | -8.8          | 0.6                      | -30.7         | 79.7           | 1,107.7        |

### 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ बिलियन में)

| 27 मई 2016 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ = ₹ 3915.64 बिलियन | 2016    |         |         |         |         |         |         |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                        | 14 मई   | 15 मई   | 16 मई   | 17 मई   | 18 मई   | 19 मई   | 20 मई   | 21 मई | 22 मई | 23 मई | 24 मई | 25 मई | 26 मई | 27 मई |
|                                                                                                        | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष                                                           | 3,925.9 | 3,925.9 | 3,974.1 | 3,918.8 | 3,914.1 | 3,865.8 | 4,030.3 |       |       |       |       |       |       |       |
| औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष                                      | 100.3   | 100.3   | 101.5   | 100.1   | 100.0   | 98.7    | 102.9   |       |       |       |       |       |       |       |

## 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ बिलियन)

| मद                                             | 13 मई 2016<br>को बकाया | पखवाड़ा      | निम्नलिखित अवधि में घटबढ़ |                 |                |                |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                |                        |              | वित्त वर्ष में अब तक      |                 | वर्ष-दर-वर्ष   |                |
|                                                |                        |              | 2015-16                   | 2016-17         | 2015           | 2016           |
|                                                | 1                      | 2            | 3                         | 4               | 5              | 6              |
| <b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>      |                        |              |                           |                 |                |                |
| 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां        | 1,478.7                | -56.8        | 78.5                      | -43.4           | 361.9          | 298.2          |
| 1.2 बैंकों से उधार                             | 508.9                  | -134.2       | -22.3                     | -135.1          | 9.7            | 133.0          |
| 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 73.9                   | -8.4         | 6.6                       | -10.3           | -9.6           | 5.9            |
| <b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>                 |                        |              |                           |                 |                |                |
| 2.1 कुल जमाराशियां                             | 95,429.9               | -342.6       | 1,541.8                   | 2,157.0         | 8,739.3        | 8,555.3        |
| 2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                        | -0.4         | 1.8                       | 2.3             | 11.2           | 9.8            |
| 2.1.1 मांग                                     | 8,516.0                | -615.1       | -151.8                    | -373.9          | 614.5          | 727.5          |
| 2.1.2 मीयादी                                   | 86,914.0               | 272.6        | 1,693.5                   | 2,531.0         | 8,124.8        | 7,827.8        |
| 2.2 उधारियां                                   | 2,918.0                | -45.3        | 65.9                      | -71.8           | 197.4          | 593.4          |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 4,700.5                | -89.4        | -322.5                    | -339.9          | 72.0           | 451.0          |
| <b>3 रिज़र्व बैंक से उधार</b>                  | <b>1,167.4</b>         | <b>280.9</b> | <b>-369.8</b>             | <b>-1,157.3</b> | <b>820.2</b>   | <b>-44.8</b>   |
| <b>4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि</b> | <b>4,564.6</b>         | <b>-41.1</b> | <b>-108.3</b>             | <b>115.8</b>    | <b>418.0</b>   | <b>408.6</b>   |
| 4.1 उपलब्ध नकदी                                | 638.8                  | 15.8         | 17.2                      | 64.4            | 50.5           | 88.0           |
| 4.1 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि               | 3,925.8                | -56.9        | -125.5                    | 51.4            | 367.5          | 320.5          |
| <b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>       |                        |              |                           |                 |                |                |
| 5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष                     | 1,730.7                | -25.7        | 76.7                      | 114.0           | 353.5          | 279.9          |
| 5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि         | 232.3                  | -105.0       | -95.5                     | -116.6          | -146.1         | 101.9          |
| 5.3 बैंकों को अग्रिम                           | 259.8                  | -1.1         | 4.3                       | -0.8            | 5.5            | 66.3           |
| 5.4 अन्य आस्तियां                              | 412.2                  | 25.4         | 1.4                       | 34.4            | 136.3          | -17.8          |
| <b>6 निवेश</b>                                 | <b>27,130.4</b>        | <b>76.9</b>  | <b>1,118.0</b>            | <b>875.3</b>    | <b>3,122.8</b> | <b>1,094.2</b> |
| 6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                        | 0.3          | 4.5                       | 3.3             | 13.6           | 4.2            |
| 6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में                    | 27,114.5               | 75.7         | 1,119.7                   | 875.1           | 3,121.4        | 1,097.3        |
| 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में             | 16.0                   | 1.2          | -1.7                      | 0.2             | 1.4            | -3.1           |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                               | <b>72,531.6</b>        | <b>-74.5</b> | <b>675.1</b>              | <b>35.5</b>     | <b>5,836.2</b> | <b>6,492.4</b> |
| 7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                        | -0.1         | 1.0                       | 0.0             | 9.7            | 9.8            |
| 7 क.1 खाद्य ऋण                                 | 1,108.4                | 67.7         | 171.3                     | 55.9            | -33.1          | -7.1           |
| 7 क.1 खाद्येतर ऋण                              | 71,423.3               | -142.2       | 503.8                     | -20.4           | 5,869.2        | 6,499.4        |
| 7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट                | 70,407.9               | -41.9        | 707.1                     | 70.7            | 5,854.9        | 6,576.9        |
| 7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए                        | 278.2                  | 10.9         | -10.2                     | 21.1            | -29.1          | -55.7          |
| 7 ख.3 भुनाए गए                                 | 1,251.6                | -24.3        | 20.6                      | -37.1           | 58.8           | 31.0           |
| 7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए                      | 210.6                  | -15.7        | -30.5                     | 6.2             | -42.9          | -0.1           |
| 7 ख.5 भुनाए गए                                 | 383.3                  | -3.5         | -12.0                     | -25.4           | -5.5           | -59.8          |

## 5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

| मद/समाप्त सप्ताह                                    | 2015       | 2016      |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                     | 22 मई      | 22 अप्रैल | 29 अप्रैल | 6 मई      | 13 मई     | 20 मई     |
|                                                     | 1          | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| <b>अनुपात</b>                                       |            |           |           |           |           |           |
| आरक्षित नकदी निधि अनुपात                            | 4.00       | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      |
| सांविधिक चलनिधि अनुपात                              | 21.50      | 21.25     | 21.25     | 21.25     | 21.25     | 21.25     |
| नकदी-जमाराशि अनुपात                                 | ..         | ..        | 4.81      | ..        | 4.78      | ..        |
| ऋण-जमाराशि अनुपात                                   | ..         | ..        | 75.81     | ..        | 76.01     | ..        |
| वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात                         | ..         | ..        | 4.40      | ..        | 1.64      | ..        |
| निवेश-जमाराशि अनुपात                                | ..         | ..        | 28.25     | ..        | 28.43     | ..        |
| वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात                      | ..         | ..        | 31.94     | ..        | 40.58     | ..        |
| <b>दरें</b>                                         |            |           |           |           |           |           |
| नीतिगत रेपो दर                                      | 7.50       | 6.50      | 6.50      | 6.50      | 6.50      | 6.50      |
| रिवर्स रेपो दर                                      | 6.50       | 6.00      | 6.00      | 6.00      | 6.00      | 6.00      |
| मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर                  | 8.50       | 7.00      | 7.00      | 7.00      | 7.00      | 7.00      |
| बैंक दर                                             | 8.50       | 7.00      | 7.00      | 7.00      | 7.00      | 7.00      |
| आधार दर                                             | 9.75/10.00 | 9.30/9.70 | 9.30/9.70 | 9.30/9.70 | 9.30/9.70 | 9.30/9.70 |
| एमसीएलआर (एक दिवसीय)                                | ..         | 8.95/9.15 | 8.95/9.15 | 8.90/9.15 | 8.90/9.15 | 8.90/9.15 |
| सावधि जमा दर > 1 वर्ष                               | 8.00/8.50  | 7.00/7.50 | 7.00/8.00 | 7.00/7.50 | 7.00/7.50 | 7.00/7.50 |
| बचत जमाराशि दर                                      | 4.00       | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      |
| मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत)                       | 7.56       | 6.49      | 6.49      | 6.39      | 6.51      | 6.44      |
| 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                   | 7.89       | 6.81      | 6.81      | 6.85      | 6.85      | 6.85      |
| 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | 7.90       | 6.91      | ..        | 6.93      | ..        | 6.95      |
| 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | ..         | ..        | 6.91      | ..        | 6.95      | ..        |
| 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय                       | 7.67       | 7.45      | 7.44      | 7.50      | 7.46      | 7.49      |
| <b>भारिबै संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया</b>        |            |           |           |           |           |           |
| आईएनआर-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 63.57      | 66.49     | 66.52     | 66.58     | 66.76     | 67.41     |
| आईएनआर-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)        | 70.93      | 75.10     | 75.73     | 75.93     | 75.72     | 75.54     |
| अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह              | 7.74       | 7.22      | 7.22      | 6.85      | 6.65      | 6.59      |
| 3-माह                                               | 7.55       | 6.98      | 6.80      | 6.70      | 6.71      | 6.44      |
| 6-माह                                               | 7.46       | 6.72      | 6.57      | 6.58      | 6.61      | 6.42      |

## 6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                 | निम्न को बकाया    |                   | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |            |                      |            |                |            |                 |             |                 |             |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|----------------------|------------|----------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|                                                    | 2016              |                   | पखवाड़ा                    |            | वित्त वर्ष में अब तक |            |                |            | वर्ष-दर-वर्ष    |             |                 |             |
|                                                    |                   |                   |                            |            | 2015-16              |            | 2016-17        |            | 2015            |             | 2016            |             |
|                                                    | 31 मार्च          | 13 मई             | राशि                       | %          | राशि                 | %          | राशि           | %          | राशि            | %           | राशि            | %           |
|                                                    | 1                 | 2                 | 3                          | 4          | 5                    | 6          | 7              | 8          | 9               | 10          | 11              | 12          |
| <b>एम३</b>                                         | <b>1,16,543.4</b> | <b>1,19,013.8</b> | <b>-58.1</b>               | <b>0.0</b> | <b>2,305.5</b>       | <b>2.2</b> | <b>2,470.4</b> | <b>2.1</b> | <b>10,770.7</b> | <b>11.1</b> | <b>11,206.6</b> | <b>10.4</b> |
| <b>1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>                     |                   |                   |                            |            |                      |            |                |            |                 |             |                 |             |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                             | 15,981.0          | 16,781.0          | 280.6                      | 1.7        | 757.5                | 5.5        | 800.0          | 5.0        | 1,403.6         | 10.6        | 2,161.7         | 14.8        |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि                     | 9,970.2           | 9,505.6           | -617.4                     | -6.1       | -129.8               | -1.5       | -464.6         | -4.7       | 650.4           | 8.0         | 719.1           | 8.2         |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि                   | 90,437.7          | 92,595.2          | 279.9                      | 0.3        | 1,725.8              | 2.1        | 2,157.4        | 2.4        | 8,645.1         | 11.4        | 8,291.7         | 9.8         |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि             | 154.5             | 132.0             | -1.1                       | -0.9       | -48.1                | -32.9      | -22.5          | -14.6      | 71.7            | 273.6       | 34.1            | 34.9        |
| <b>2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>               |                   |                   |                            |            |                      |            |                |            |                 |             |                 |             |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                          | 32,410.3          | 35,035.6          | 60.3                       | 0.2        | 1,681.3              | 5.6        | 2,625.3        | 8.1        | 980.7           | 3.2         | 3,280.3         | 10.3        |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                 | 4,250.0           | 6,152.2           | -16.3                      | -          | 551.3                | -          | 1,902.3        | -          | -2,306.3        | -           | 1,955.7         | -           |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                    | 28,160.3          | 28,883.3          | 76.5                       | 0.3        | 1,130.0              | 4.3        | 723.0          | 2.6        | 3,287.0         | 13.5        | 1,324.6         | 4.8         |
| 2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण                     | 78,219.1          | 77,885.6          | -61.4                      | -0.1       | 589.7                | 0.8        | -333.5         | -0.4       | 6,184.4         | 9.5         | 6,869.6         | 9.7         |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                 | 200.8             | 81.3              | -1.4                       | -          | -86.5                | -          | -119.5         | -          | -17.0           | -           | 19.3            | -           |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                    | 78,018.3          | 77,804.3          | -60.1                      | -0.1       | 676.2                | 1.0        | -214.0         | -0.3       | 6,201.4         | 9.6         | 6,850.2         | 9.7         |
| 2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | 24,907.1          | 25,103.7          | -56.4                      | -0.2       | 1,107.4              | 4.9        | 196.7          | 0.8        | 4,076.1         | 20.9        | 1,489.8         | 6.3         |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं          | 219.1             | 219.1             | -                          | -          | 1.2                  | 0.6        | -              | -          | 20.7            | 11.9        | 23.6            | 12.1        |
| 2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं       | 19,212.1          | 19,230.2          | 0.6                        | 0.0        | 1,074.2              | 6.1        | 18.1           | 0.1        | 491.2           | 2.7         | 456.6           | 2.4         |
| 2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं        | 9,541.7           | 9,666.3           | -49.7                      | -0.5       | 940.5                | 12.0       | 124.6          | 1.3        | 580.3           | 7.1         | 873.1           | 9.9         |

## 7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                               | निम्न को बकाया  |                 | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |            |                      |             |             |            |                |             |                |             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                                                                  | 2016            |                 | सप्ताह                     |            | वित्त वर्ष में अब तक |             |             |            | वर्ष-दर-वर्ष   |             |                |             |
|                                                                  |                 |                 |                            |            | 2015-16              |             | 2016-17     |            | 2015           |             | 2016           |             |
|                                                                  | 31 मार्च        | 20 मई           | राशि                       | %          | राशि                 | %           | राशि        | %          | राशि           | %           | राशि           | %           |
|                                                                  | 1               | 2               | 3                          | 4          | 5                    | 6           | 7           | 8          | 9              | 10          | 11             | 12          |
| <b>आरक्षित मुद्रा</b>                                            | <b>21,807.4</b> | <b>21,869.8</b> | <b>57.2</b>                | <b>0.3</b> | <b>-139.3</b>        | <b>-0.7</b> | <b>62.4</b> | <b>0.3</b> | <b>1,951.0</b> | <b>11.3</b> | <b>2,724.5</b> | <b>14.2</b> |
| <b>1 घटक (1.1+1.2+1.3)</b>                                       |                 |                 |                            |            |                      |             |             |            |                |             |                |             |
| 1.1 संचालन में करेंसी                                            | 16,634.6        | 17,448.4        | -46.7                      | -0.3       | 717.2                | 5.0         | 813.8       | 4.9        | 1,485.2        | 10.8        | 2,248.1        | 14.8        |
| 1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि                         | 5,018.3         | 4,290.7         | 105.2                      | 2.5        | -809.1               | -17.4       | -727.5      | -14.5      | 406.3          | 11.8        | 444.2          | 11.5        |
| 1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि                           | 154.5           | 130.7           | -1.3                       | -1.0       | -47.4                | -32.5       | -23.8       | -15.4      | 59.5           | 152.3       | 32.2           | 32.7        |
| <b>2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>                             |                 |                 |                            |            |                      |             |             |            |                |             |                |             |
| 2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण                | 4,250.0         | 6,166.7         | 14.4                       | -          | 473.0                | -           | 1,916.7     | -          | -2,500.5       | -           | 2,048.4        | -           |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण             | 4,245.6         | 6,156.5         | 30.4                       | -          | 501.5                | -           | 1,910.9     | -          | -2,500.9       | -           | 2,044.7        | -           |
| 2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | 3,045.4         | 1,145.6         | 69.4                       | -          | -835.8               | -           | -1,899.7    | -          | 790.4          | -           | -43.6          | -           |
| 2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे                        | 2,844.5         | 1,068.7         | 73.8                       | -          | -749.0               | -           | -1,775.8    | -          | 813.7          | -           | -58.8          | -           |
| 2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां                  | 23,834.8        | 24,228.0        | 196.6                      | 0.8        | 959.7                | 4.5         | 393.3       | 1.7        | 4,150.4        | 23.0        | 1,995.6        | 9.0         |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता                          | 219.1           | 219.1           | -                          | -          | 1.2                  | 0.6         | -           | -          | 20.7           | 11.9        | 23.6           | 12.1        |
| 2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता                          | 9,541.7         | 9,889.6         | 223.3                      | 2.3        | 737.4                | 9.4         | 347.8       | 3.6        | 510.1          | 6.3         | 1,299.4        | 15.1        |

## 8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ बिलियन)

| दिनांक     | चलनिधि समायोजन सुविधा |             |                        |                               | एमएसएफ | स्थायी चलनिधि सुविधा | ओएमओ (एकमुश्त) |      | निवल अंतर्वेशन<br>(+)/अवशोषण (-)<br>(1+3+5+6+8-2-4-7) |
|------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|--------|----------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------|
|            | रेपो                  | रिवर्स रेपो | परिवर्तनशील<br>रेपो दर | परिवर्तनशील<br>रिवर्स रेपो दर |        |                      | विक्रय         | क्रय |                                                       |
|            |                       |             |                        |                               |        |                      |                |      |                                                       |
|            | 1                     | 2           | 3                      | 4                             | 5      | 6                    | 7              | 8    | 9                                                     |
| 16 मई 2016 | 192.91                | 38.11       | —                      | —                             | 3.15   | –0.70                | —              | —    | 157.25                                                |
| 17 मई 2016 | 124.97                | 31.03       | 385.08                 | —                             | —      | –4.60                | —              | —    | 474.42                                                |
| 18 मई 2016 | 52.81                 | 39.44       | —                      | —                             | 0.40   | 5.30                 | —              | —    | 19.07                                                 |
| 19 मई 2016 | 99.76                 | 13.35       | —                      | —                             | 6.12   | —                    | —              | —    | 92.53                                                 |
| 20 मई 2016 | 156.90                | 11.43       | 185.03                 | —                             | 7.50   | —                    | —              | —    | 338.00                                                |
| 21 मई 2016 | —                     | 12.27       | —                      | —                             | 1.50   | —                    | —              | —    | –10.77                                                |

### 9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

| मद                                                                  | 2015  |        | 2016  |        | निम्नलिखित अवधि में प्रतिशत घट-बढ़ |       |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|------------------------------------|-------|-------|
|                                                                     | मार्च | अप्रैल | मार्च | अप्रैल | माह                                | मार्च | वर्ष  |
|                                                                     | 1     | 2      | 3     | 4      | 5                                  | 6     | 7     |
| <b>1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)</b>                          | 120.2 | 120.7  | 126.0 | 127.2  | 1.0                                | 1.0   | 5.4   |
| 1.1 ग्रामीण                                                         | 121.1 | 121.5  | 128.0 | 128.9  | 0.7                                | 0.7   | 6.1   |
| 1.2 शहरी                                                            | 119.1 | 119.7  | 123.8 | 125.3  | 1.2                                | 1.2   | 4.7   |
| <b>2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100)</b> | 254.0 | 256.0  | 268.0 | ..     | ..                                 | ..    | ..    |
| <b>3 थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)</b>                            | 176.1 | 176.4  | 174.6 | 177.0  | 1.4                                | 1.4   | 0.3   |
| 3.1 प्राथमिक वस्तुएं                                                | 239.0 | 243.6  | 244.1 | 249.3  | 2.1                                | 2.1   | 2.3   |
| 3.2 ईंधन और बिजली                                                   | 188.0 | 184.3  | 172.4 | 175.4  | 1.7                                | 1.7   | - 4.8 |
| 3.3 विनिर्मित उत्पाद                                                | 153.9 | 153.9  | 153.7 | 155.0  | 0.8                                | 0.8   | 0.7   |

### 10. जमा प्रमाणपत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 1                       | 2                     |
| 15 अप्रैल 2016 | 2,383.2                  | 142.3                   | 7.06 - 8.03           |
| 29 अप्रैल 2016 | 2,541.3                  | 206.6                   | 7.10 - 7.80           |

### 11. वाणिज्यिक पत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 1                       | 2                     |
| 30 अप्रैल 2016 | 3,356.8                  | 564.6                   | 6.88 - 13.23          |
| 15 मई 2016     | 3,774.7                  | 1,032.9                 | 7.08 - 13.29          |

### 12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ बिलियन)

| मद                       | समाप्त सप्ताह |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                          | 22 मई<br>2015 | 13 मई<br>2016 | 20 मई<br>2016 |
|                          | 1             | 2             | 3             |
| 1 मांग मुद्रा            | 179.9         | 290.1         | 260.0         |
| 2 नोटिस/सावधि मुद्रा     | 54.1          | 12.3          | 11.4          |
| 3 सीबीएलओ                | 1,102.6       | 1,105.6       | 1,670.3       |
| 4 बाजार रेपो             | 932.1         | 1,588.9       | 1,495.3       |
| 5 कॉरपोरेट बांड में रेपो | -             | 0.4           | -             |

### 13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ बिलियन)

| 20 मई<br>2016 को | प्रमुख धारक |                      |               | कुल     |
|------------------|-------------|----------------------|---------------|---------|
|                  | बैंक        | प्राथमिक<br>व्यापारी | राज्य सरकारें |         |
|                  | 1           | 2                    | 3             |         |
| 14-दिवसीय        | -           | -                    | 1,012.6       | 1,018.2 |
| 91-दिवसीय        | 452.1       | 346.9                | 450.9         | 1,598.3 |
| 182-दिवसीय       | 249.7       | 364.2                | 55.7          | 774.8   |
| 364-दिवसीय       | 483.6       | 681.8                | 19.6          | 1,539.7 |
| सीएमबी           | -           | -                    | -             | -       |

### 14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ बिलियन में)

| मद               | जुटाई गई सकल राशि          |                            |         | जुटाई गई निवल राशि         |                            |         |
|------------------|----------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|---------|
|                  | 2016-17<br>(20 मई 2016 तक) | 2015-16<br>(22 मई 2015 तक) | 2015-16 | 2016-17<br>(20 मई 2016 तक) | 2015-16<br>(22 मई 2015 तक) | 2015-16 |
|                  | 1                          | 2                          | 3       | 4                          | 5                          | 6       |
| 1. भारत सरकार    | 900.0                      | 960.0                      | 5,850.0 | 403.9                      | 931.0                      | 4,406.3 |
| 2. राज्य सरकारें | 243.6                      | 269.9                      | 2,945.6 | 184.7                      | 191.3                      | 2,593.7 |

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका [www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762](http://www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762) में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री सुनिल कुमार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।